

Roll No. ....

## **Y – 294 / Y – 295 / Y – 296 (A)**

### **B.Sc. (Second Year) (SPECIAL) EXAMINATION, August 2021**

#### **(SECOND CHANCE)**

#### **CHEMISTRY**

Paper – I, II, III

### **PHYSICAL CHEMISTRY/INORGANIC CHEMISTRY/ORGANIC CHEMISTRY**

*Time : Three Hours*

*Maximum Marks : 27 + 27 + 26 = 80 (For Regular Students)      Minimum Pass Marks : 33%*

**नोट-** सभी प्रश्न हल कीजिये।

Attempt *all* questions.

#### **खण्ड ( अ )**

##### **(Section A)**

- |  |   |
|--|---|
| 1. उदासीनीकरण की एंथैल्पी पर टिप्पणी लिखिए।                          | 9 |
| Write a note on Enthalpy of Neutralization.                          |   |
| 2. नन्स्ट वितरण नियम को समझाइए।                                      | 9 |
| Explain Nernst Distribution law.                                     |   |
| 3. उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड्स के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाइए। | 9 |
| Write a detailed note on types of Reversible Electrodes.             |   |

#### **खण्ड ( ब )**

##### **(Section B)**

- |  |   |
|--|---|
| 4. द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के संकुलों के स्पेक्ट्रल गुणों (Spectral Properties) एवं त्रिविम रसायन का वर्णन कीजिए। | 9 |
| Describe Spectral Properties and Stereochemistry of complexes of second and third transition series elements.                        |   |
| 5. लैन्थेनाइडों के निम्नलिखित गुणों का वर्णन कीजिए :   | 9 |
| (i) आक्सीकरण अवस्थायें   |   |
| (ii) आयनिक त्रिज्या एवं लैन्थेनाइड संकुचन  |   |
| (iii) संकुल निर्माण  |   |
| (iv) आयनों का रंग।   |   |

Describe the following properties of Lanthanides :

- (i) Oxidation States
  - (ii) Ionic radii and Lanthanide contraction
  - (iii) Complex formation
  - (iv) Colour of ions.
6. यूरेनियम से नेप्ट्यूनियम (NP), प्लूटोनियम (Pu) तथा अमेरिकम (Am) को पृथक करने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। 9

Describe any *two* methods of separation of Neptunium (NP), Plutonium (Pu) and Americium (Am) from Uranium (U).

### खण्ड (स)

#### (Section C)

7. इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रमिकी के सिद्धान्त एवं अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। 8

Describe the principle and application of Infra-red spectroscopy.

8. रिसॉर्सिनॉल क्या है ? इससे फ्लुओरेसीन रंजक किस प्रकार बनाया जाता है ? 9

What is Resorcinol ? How is fluorescein dye prepared from Resorcinol ?

9. सिट्रिक अम्ल किस प्रकार बनाया जाता है ? इसके महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। इसकी टार्टरिक अम्ल से कैसे पहचान करोगे ? 9

How is citric acid prepared ? Describe the important properties. How will you identify it from tartaric acid ?